

ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

प्रश्नगत परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में 01 प्रश्नपत्र होगा, जिसके कुल अधिकतम अंक 90 होंगे तथा साक्षात्कार के 20 अंक होंगे। इसी प्रकार से अभ्यर्थियों का चयन कुल 110 अंको के आधार पर किया जायेगा। विवरण निम्नवत है :-

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयविधि
प्रथम चरण –			
भाग 1 – हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता	40	40	
भाग 2 – सामान्य बुद्धि परीक्षण	20	20	एक घंटा 30 मिनट
भाग 3 – सामान्य जानकारी	30	30	
योग	90	90	
द्वितीय चरण – साक्षात्कार	–	20	
कुल योग	–	110	
पाठ्यक्रम			

भाग 1 – हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता –

उक्त भाषा में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता सम्बन्धी प्रश्न पूछे जायेंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा।

भाग 2 – सामान्य बुद्धि परीक्षण –

इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने एवं तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस भाषा में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जो अनुदेशों को समझने, सम्बन्धों / समानताओं / संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से सम्बंधित हों।

भाग 3 – सामान्य जानकारी –

इस भाग में अभ्यर्थियों से उनके चतुर्विध वातावरण के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसकी उपयोगिताओं के सम्बन्ध में, योग्यता मापने के लिए प्रश्न पूछे जायेंगे। इस भाग में सम-सामायिक घटनाओं, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, विशेष रूप से भारत से सम्बंधित ऐतिहासिक / भौगोलिक तथ्यों से सम्बंधित एवं वैज्ञानिक पहलुओं से सम्बंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे।